



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929

No. 458]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2007

सा.का.नि. 657(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 12-6-2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) के साथ पठित दिनांक 13-7-2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) के क्रम में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की तालिका में क्रम सं. 14 के बाद निम्नलिखित को दिनांक 31-3-2009 तक तृतीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है:-

तालिका

15. संयुक्त नौवहन महानिदेशक, मुंबई	समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि।
16. अधिकारिक सीमा शुल्क आयुक्त, कस्टम हाउस, न्यू हार्बर इस्टेट, तृतीकोरिन	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि।
17. मुख्य यातायात भाड़ा प्रबंधक, दक्षिणी रेलवे, चेन्नई	भारतीय रेल के प्रतिनिधि।

[फा. सं. पी टी-18011/1/2007-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

4184 GI/2007

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2007

G.S.R. 657(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 422(E) dated 12-6-2007, and read with No. G.S.R. 483 (E) dated 13-7-2007, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 14 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Tuticorin up to 31-3-2009.

TABLE

15. Joint Director General of Shipping, Mumbai	Representative of Mercantile Marine Department.
16. Jurisdictional Commissioner of Customs, Custom House, New Harbour Estate, Tuticorin	Representative of Department of Customs.
17. Chief Freight Traffic Manager, Southern Railway, Chennai	Representative of Indian Railways.

[F.No.PT-18011/1/2007-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.